

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 43] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 25—अक्टूबर 31, 2014 (कार्तिक 3, 1936)
No. 43] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 25—OCTOBER 31, 2014 (KARTIKA 3, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की
नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the
Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली—110001, दिनांक 1 जुलाई 2014

सं.आरएस/20/1/2014/54-कार्मिक----अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, श्री अजय घोष, संयुक्त सचिव (वृत्तलेखन) 30 जून, 2014 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

सं.आरएस/20/1/2014/55-कार्मिक----अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, श्री क्षेमेन्द्र सिंह, संयुक्त निदेशक (वृत्तलेखन) 30 जून, 2014 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

सं.आरएस/20/1/2014/56-कार्मिक--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, श्रीमती उषा भान, संयुक्त निदेशक (मुद्रण एवं प्रकाशन) 30 जून, 2014 के अपराहन से सेवानिवृत्त हो गई हैं।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

दिनांक 1 अगस्त 2014

सं.आरएस/20/1/2014/63-कार्मिक---अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, श्री आलोक कुमार चटर्जी, संयुक्त सचिव 31 जुलाई, 2014 के अपराहन से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

सं.आरएस/20/1/2014/64-कार्मिक----अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, श्री कुमार स्कंद मणि, संयुक्त निदेशक (सुरक्षा), 31 जुलाई, 2014 के अपराहन से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

दिनांक 1 सितम्बर 2014

सं.आरएस/20/1/2014/80-कार्मिक---अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, श्री चन्द्र भान राय, निदेशक, 31 अगस्त, 2014 के अपराहन से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

सं.आरएस/20/1/2014/81-कार्मिक----अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, श्री राज कुमार त्रिखा, उप निदेशक (पी एण्ड पी), 31 अगस्त, 2014 के अपराहन से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

अंतरिक्ष विभाग

बेंगलूर-560 231 दिनांक 27 सितम्बर 2014

सं. 7/1(2)2014-I--अंतरिक्ष विभाग के द्रव नोदन प्रणाली केंद्र, बेंगलूर में निम्नलिखित वैज्ञानिक/इंजीनियर ने अपनी अधिवर्षिता आयु प्राप्ति के परिणामस्वरूप प्रत्येक के सामने दी गई तारीख के अपराहन से कार्यभार छोड़ दिया है:-

क्रम सं.	नाम श्री/श्रीमती/कु.	पदनाम	अधिवर्षिता की तिथि
1.	एस. रवि शंकर	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एच.	31.01.2014
2.	के. शंकरन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.	30.11.2012
3.	ए.के. वेंकटस्वामी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.	28.03.2013
4.	सी. रतुराशी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई..	28.03.2013
5.	एम. मुनिरामन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.	31.01.2014

बी. अनिल कुमार, उपसचिव

सं.7/1(2)2014-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के द्रव नोदन प्रणाली केंद्र, बंगलूर में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/ इंजीनियरों को प्रत्येक के सामने दिए गए पदों पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01.01.2014 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :--

क्र.सं.	नाम श्री/श्रीमती/कु	पद जिससे पदोन्नति की गई	पद जिस पर पदोन्नति की गई
1	डी. गंगाधर	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-जी	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एच
2	वी.डी. रघुपति	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एसएफ	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एसजी
3	शहाउर रहमान	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एसई	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एसएफ
4	बी. चन्द्रमोहन	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एसई	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एसएफ
5	वी.एस.एस. नरसिंहम	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एसई	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एसएफ
6	आर. उदय सूर्यन	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एसडी	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एसई
7	जी. शिवरामय्या	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एसडी
8	सुमित बुध्वा	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एसडी

बी. अनिल कुमार, उपसचिव

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 1 अक्टूबर 2014

सं. ए-19/जी-ए/101--श्री अक्षय कुमार राउत, भा.सू.से. (1984) जिनकी सेवाएं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के आदेश सं. 67/2009-भा.सू.से. के द्वारा जारी दिनांक 11.08.2009 के पत्र सं. पी एफ/1642/भा.सू.से. (खण्ड-11) एवं प्रैस सूचना ब्यूरो के दिनांक 19.08.2009 के कार्यालय आदेश सं. 106/2009 प्रशा-1 के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को सौंपी गई थी, को उनका कार्यकाल समाप्त होने पर भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय में महानिदेशक के पद से, उनके संवर्ग को रिपोर्ट करने के लिए, एतद्वारा, दिनांक 01.10.2014 (अपराह्न) से कार्यमुक्त किया जाता है।

2. इसके अतिरिक्त, श्री राउत को 02.10.2014 से 06.10.2014 तक (पूर्वयोजित) और 18.10.2014 एवं 19.10.2014 (पश्चयोजित) सहित दिनांक 07.10.2014 से 17.10.2014 तक, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अधीन प्रतिनियुक्त अधिकारियों पर यथाप्रवृत्त, 11 दिन का कार्यकाल समाप्ति अवकाश प्रदान किया जाता है। वे उक्त अवकाश की समाप्ति पर अपने मूल विभाग अर्थात् सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को रिपोर्ट करेंगे।

ए.एन.दास, अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर 2014

सं. 14012/23/2005-अ.भा.से.-III--भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति असम-मेघालय राज्य संवर्ग के 1994 के बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य श्री राजीव चंद्र जोशी को 04.09.1996 से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं।

नवनीत मिश्रा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 1 अक्टूबर 2014

सं. 14015/17/2014-अ.भा.से.-(I)-क--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित राज्य सिविल सेवा श्रेणी के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के ओडिशा संवर्ग की पदोन्नति कोटा की रिक्तियों को भरने के लिए विनियम 5(5) के अंतर्गत

दिनांक 25.07.2014 को तैयार और विनियम 7(2) के अंतर्गत दिनांक 17.09.2014 को अनुमोदित की गई ओडिशा के राज्य सिविल सेवा अधिकारियों की निम्नलिखित नामों वाली प्रवर सूची को अधिसूचित करते हैं :—

प्रवर सूची — 2013 (01.01.2013 से 31.12.2013 के मध्य हुई रिक्तियों के लिए)

क्र.सं .	अधिकारी का नाम (सर्वश्री/सुश्री)	जन्म तिथि
1#.	ध्रुव चरण पंचाभय (अ.जा.)	19.07.1956
2@.	सुशील कुमार दास 3-	10.01.1957
3\$.	अनंत चरण नायक (अ.जा.)	02.02.1957
4.	निरंजन साहू	20.01.1961
5.	प्रसंता कुमार सेनापति	01.04.1960
6.	बिष्णु चरण पुरुस्ते	23.05.1959
7.	प्रवत कुमार लैंका	10.04.1959
8.	सुंदरलाल सील	20.05.1960
9#.	बिजय चंद्र महापात्रा	1960 .17.01
10.	हरी बल्लव मिश्रा	27.04.1959
11.	देबेन्द्र मेहपात्रा	02.03.1959
12.	रत्नाकर रोउत	24.03.1961

क्र.सं. 1 और 9 के नामों को उनके विरुद्ध लंबित अनुशासनिक एवं आपराधिक कार्यवाही के निपटान के अध्यक्षीन इस सूची में अनंतिम रूप से शामिल किया गया है।

@ क्र.सं. 2 के नामों को उनके विरुद्ध लंबित आपराधिक कार्यवाही के निपटान के अध्यक्षीन इस सूची में अनंतिम रूप से शामिल किया गया है।

\$ क्र.सं. 3 के नामों को उनके विरुद्ध लंबित अनुशासनिक कार्यवाही के निपटान के अध्यक्षीन इस सूची में अनंतिम रूप से शामिल किया गया है।

नरेन्द्र गौतम, अवर सचिव

सं. 14015/17/2014-अ.भा.से.-(I)-ख—राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रवर सूची वर्ष 2013 के लिए राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों के लिए ओडिशा राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को अगले आदेश तक भारतीय प्रशासनिक सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के अन्तर्गत ओडिशा संवर्ग आबंटित करते हैं।

प्रवर सूची — 2013 (01.01.2013 से 31.12.2013 के मध्य हुई रिक्तियों के लिए)

क्र.सं .	अधिकारी का नाम (सर्वश्री/सुश्री)
.1	निरंजन साहु
.2	प्रसन्ता कुमार सेनापति
.3	बिष्णु चरण पुरुस्ते
.4	प्रवत कुमार लेंका
.5	सुंदरलाल सील
.6	हरी बल्लव मिश्रा
.7	देबेन्द्र महापात्रा
.8	रत्नाकर रोउत

नरेन्द्र गौतम, अवर सचिव

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 सितंबर 2014

संख्या ए-प्रशासन-2013/8/32011-II----राष्ट्रपति, निम्नलिखित कंपनी अभियोजकों को उनकी पदोन्नति के परिणामस्वरूप उनके नाम के आगे दी गई तारीख से भारतीय कारपोरेट विधि सेवा के कनिष्ठ समयमान (जे.टी.एस.) (समूह-क) (पीबी-3, 15,600—39,100/- रु. + 5,400/- रु. ग्रेड पे) में नियुक्त करते हैं :—

क्र सं.	अधिकारी का नाम (श्री/श्रीमती)	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
.1	एस. एम. ए. मिर्कैल, सहायक कंपनी रजिस्ट्रार, कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय, कोलकाता	13.08.2014 (पूर्वाह्न)
.2	एन. चंद्रराज, सहायक कंपनी रजिस्ट्रार, कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय, कोयम्बटूर	13.08.2014 (अपराह्न)
.3	वी. टी. सजीवन, सहायक शासकीय समापक, शासकीय समापक कार्यालय, एर्नाकुलम	13.08.2014 (पूर्वाह्न)
.4	पंकज श्रीवास्तव, सहायक निदेशक, प्रादेशिक निदेशक (उ.क्ष.), नोएडा	13.08.2014 (पूर्वाह्न)
.5	सी. केरकेट्टा, सहायक कंपनी रजिस्ट्रार, कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय, ग्वालियर	13.08.2014 (पूर्वाह्न)

राकेश कुमार, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

विदेश व्यापार महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 अक्टूबर 2014

सं. 05/2014(फा.सं. 6/2610/2011/एचआरडी-I-2650)--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर इस महानिदेशालय में कार्यरत श्री सुरेन्द्र भारद्वाज, विदेश व्यापार विकास अधिकारी (अनुभाग अधिकारी सीएसएस) 30.09.2014 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गये हैं।

निर्मल कुमार, उप विदेश व्यापार महानिदेशक (मा.सं.वि.)

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर 2014

सं.ए-19012/1185/2006-स्था.।----औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में निजी सचिव श्री बी.जयकुमार अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर 30 सितम्बर, 2014 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

एल.के.शर्मा, अवर सचिव

रेल मंत्रालय

रेलवे बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 9 अक्टूबर 2014

सं. ई(ओ)III-2014/आरएन/17—श्री एस. बालाकृष्णा, एसएजी/आईआरएसई, (जन्मतिथि:09.03.55 और डीआईटीएस: 04.07.81) ने राइट्स में अपना स्थाई समाहन होने के परिणामस्वरूप 23.05.2014 (अपराह्न) को रेलवे सेवा से त्यागपत्र दे दिया है।

पी. सी. गजमिए, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

मानव संसाधन मंत्रालय

(स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 सितम्बर 2014

सं. 19-11/2014-ए.ई.1—राष्ट्रपति जी सर्वश्री ओ.पी. आर्य एवं अमरजीत सिंह वोहरा, सहायक निदेशक के पद पर नियमित रूप से दिनांक 26 सितम्बर, 2014 पूर्वाह्न से प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय में पे-बैंड-3, 15,600—39,100/- ग्रेड पे 5,400/- रु. के वेतनमान में पदोन्नति करते हैं।

अशोक कुमार, अवर सचिव

दिनांक 14 अक्टूबर 2014

सं. 19-10/2014-ए.ई.1—राष्ट्रपति जी डॉ. रामाकृष्णा सूरा, संयुक्त निदेशक को अपर निदेशक के पद पर नियमित रूप से दिनांक 14 अक्टूबर, 2014 पूर्वाह्न से प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय में वेतन-बैंड-4, 37,400—67,000/- ग्रेड वेतन 8,700/- रु. के वेतनमान में पदोन्नति करते हैं।

अशोक कुमार, अवर सचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 1st July 2014

No.RS/20/1/2014/54-Perl. — On attaining the age of superannuation, Shri Ajay Ghosh, Joint Secretary (Reporting), retired from service with effect from the afternoon of 30th June, 2014.

S. RANGARAJAN, Jt. Director

No.RS/20/1/2014/55-Perl.—On attaining the age of superannuation, Shri Kshemendra Singh, Joint Director (Reporting), retired from service with effect from the afternoon of 30th June, 2014.

S. RANGARAJAN, Jt. Director

No.RS/20/1/2014/56-Perl. — On attaining the age of superannuation, Smt. Usha Bhan, Joint Director (P&P), retired from service with effect from the afternoon of 30th June, 2014.

S. RANGARAJAN, Jt. Director

The 1st August 2014

No.RS/20/1/2014/63-Perl.— On attaining the age of superannuation, Shri Alok Kumar Chatterjee, Joint Secretary, retired from service with effect from the afternoon of 31st July, 2014.

S. RANGARAJAN, Jt. Director

No.RS/20/1/2014/64-Perl. — On attaining the age of superannuation, Shri Kumar Skanda Mani, Joint Director (Security), retired from service with effect from the afternoon of 31st July, 2014.

S. RANGARAJAN, Jt. Director

The 1st September 2014

No.RS/20/1/2014/80-Perl.— On attaining the age of superannuation, Shri Chandra Bhan Rai, Director, retired from service with effect from the afternoon of 31st August, 2014.

S. RANGARAJAN, Jt. Director

No. RS/20/1/2014/81-Perl.— On attaining the age of superannuation, Shri Raj Kumar Trikha, Deputy Director (P&P), retired from service with effect from the afternoon of 31st August, 2014.

S. RANGARAJAN, Jt. Director

DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore-560 231, the 27th September 2014

No. 7/1(2) 2014–I : Consequent on attaining the age of Superannuation the following Scientists/Engineers in the Liquid Propulsion Systems Centre, Bangalore of the Department of Space have relinquished the charge of the post with effect from the afternoon of the dates mentioned against each :—

Sl. No.	Name Shri/Smt/Kum	Post	Date of Relief
1.	S. Ravi Shankar	Scientist/Engineer-H	31.01.2014
2.	K. Sankaran	Scientist/Engineer-SE	30.11.2012
3.	A.K. Venkataswamy	Scientist/Engineer-SE	28.03.2013
4.	C. Ruthurashi	Scientist/Engineer-SE	28.03.2013
5.	M. Muniraman	Scientist/Engineer-SE	31.01.2014

B. ANIL KUMAR, Dy. Secy.

No.7/1(2)2014—I—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers to the posts mentioned against each in the Liquid Propulsion Systems Centre, Bangalore of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.01.2014 and until further orders :—

Sl. No.	Name Shri/Smt./Kum.	Post from which promoted	Post to which promoted
1	D. Gangadhar	Scientist/Engineer-G	Scientist/Engineer-H
2	V.D. Ragupathy	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
3	Shahaur Rahman	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
4	B. Chandramohan	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
5	V.S.S. Narasimham	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
6	R Udaya Suriyan	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
7	G. Shivaramaiah	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
8	Sumit Budhwar	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD

B. ANIL KUMAR, Dy. Secy.

SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi-110001, the 1st October 2014

No. A-19/G-A/101—Shri Akshay Kumar Rout, IIS (1984) whose services were placed at the disposal of the Election Commission of India vide the M/o Information and Broadcasting Order No 67/2009-IIS issued vide their communication No PF/1642/IIS (Vol.II)/587 dated 11.08.2009 and PIB Office Order No 106/2009 Admn-I dated 19.08.2009, is hereby relieved from the post of Director General in the Secretariat of the Election Commission of India, on completion of his tenure, with effect from 01.10.2014(A/N), to report to the cadre.

2. Further, Sh. Rout is granted 11 days End of Tenure leave w.e.f 07.10.2014 to 17.10.2014 with 02.10.2014 to 06.10.2014 prefixes and 18.10.2014 and 19.10.2014 (suffix), as applicable to the officers on deputation under Central Staffing Scheme of DoP&T. He will report to his parent department i.e. Ministry of Information and Broadcasting on expiry of the said leave.

A.N.DAS, Under Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, P.G. & PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delh, the 30th September 2014.

No.14012/23/2005 - AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule 3-A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm Shri. Rajeev Chandra Joshi, member of the Indian Administrative Service borne on the State Cadre of Assam -Meghalaya of 1994 batch, in the Indian Administrative Service, with effect from 04.09.1996.

NAVNEET MISRA, Under Secy.

New Delhi, the 1st October 2014.

No. 14015/17/2014-AIS (I)-A—In exercise of powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to notify the Select List of State Civil Service officers of Odisha containing the following names prepared on 25.07.2014 under Regulation 5(5) and approved on 17.09.2014, under Regulation 7(2) towards

filling up promotion quota vacancies in Odisha cadre of IAS under State Civil Service category determined by the Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government:-

Select List of 2013(Against vacancies arisen between 1.1.2013 to 31.12. 2013)

S.No.	Name of the Officer (S/Shri)	Date of Birth
1.#	Dhruba Charan Panchabhaya (SC)	19.07.1956
2.@	Susil Kumar Das-3	10.01.1957
3.\$	Ananta Charan Nayak (SC)	02.02.1957
4.	Niranjan Sahu	20.01.1961
5.	Prasanta Kumar Senapati	01.04.1960
6.	Bishnu Charan Prusty	23.05.1959
7.	Pravat Kumar Lenka	10.04.1959
8.	Sundarlal Seal	20.05.1960
9.#	Bijay Chandra Mahapatra	17.01.1960
10.	Hari Ballav Mishra	27.04.1959
11.	Debendra Mohapatra	02.03.1959
12.	Ratnakar Rout	24.03.1961

The names at S. No. 1 and 9 have been included in the list provisionally subject to clearance in the disciplinary and criminal proceedings pending against them.

@ The name at S. No. 2 has been included in the list provisionally subject to clearance in the criminal proceedings pending against him.

\$ The name at S. No. 3 has been included in the list provisionally subject to clearance in the disciplinary proceedings pending against him.

NARENDRA GAUTAM, Under Secy.

No. 14015/17/2014-AIS (I)-B—In exercise of the powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following members of the State Civil Service of Odisha to the Indian Administrative Service against the vacancies determined by Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List of 2013, on probation until further orders and to allocate them to the Odisha Cadre, under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 :--

Select List of 2013 (Against vacancies arisen between 1.1.2013 to 31.12. 2013)

S. No.	Name of the Officer (S/Shri)
1	Niranjan Sahu
2.	Prasanta Kumar Senapati
3.	Bishnu Charan Prusty

S. No.	Name of the Officer (S/Shri)
4.	Pravat Kumar Lenka
5.	Sundarlal Seal
6.	Hari Ballav Mishra
7.	Debendra Mohapatra
8.	Ratnakar Rout

NARENDRA GAUTAM, Under Secy.

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

New Delhi, the 19th September 2014

No.A-32011/8/2013-Ad.II—The President is pleased to appoint the following Company Prosecutors to the Junior Time Scale (JTS) (Group 'A') of Indian Corporate Law Service (PB-3, Rs. 15600 - 39100 + Grade Pay Rs. 5400) on their promotion with effect from the date mentioned against their name :--

S.No.	Name of the officer and designation (S/Sh.)	Date of effect
1	S.M.A. Mikail, Assistant Registrar of Companies, Office of Registrar of Companies, Kolkata	13.08.2014 (Forenoon)
2	N. Chandraraj, Assistant Registrar of Companies, Office of Registrar of Companies, Coimbatore	13.08.2014 (Afternoon)
3	V.T. Sajeewan, Assistant Official Liquidator, Office of Official Liquidator, Ernakulam	13.08.2014 (Forenoon)
4	Pankaj Srivastava, Assistant Director, Office of Regional Director (NR), Noida	13.08.2014 (Forenoon)
5	C. Kerketta, Assistant Registrar of Companies, Office of Registrar of Companies, Gwalior	13.08.2014 (Forenoon)

RAKESH KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

New Delhi, the 7th October 2014

No. 05/2014 F. No.6/2610/2011/HRD-I 2650—On attaining the age of superannuation Shri Surinder Bhardwaj, FTDO (Section Officer CSS) in this Directorate retired from Government service with effect from 30.09.2014 (AN).

NIRMAL KUMAR, Dy. Director General of Foreign Trade

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION

New Delhi-110 107, the 30th September 2014

No. A- 19012/1185/2006-E-I—On attaining the age of superannuation, Shri B. Jayakumar, Private Secretary, in the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, is retired from Government service, with effect from the afternoon of 30th September, 2014.

L. K. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 09th October 2014

No.E(O)III-2014/RN/17—Consequent upon his permanent absorption in RITES Shri S.Balakrishna, SAG/ IRSE, (DOB: 09.03.55 & DITS: 04.07.81) has resigned from Railway service with effect from 23.05.2014 (AN).

P. C. GAJBHIYE, Secy.
(Railway Board)MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY)

New Delhi, the 26th September 2014

No. 19-11/ 2014-A.E.I—The President is pleased to promote S/Shri O.P. Arya and Amarjit Singh vohra to the post of Assistant Director in the Directorate of Adult Education in the pay band of Rs. 15,600—39,100 + Grade pay of Rs. 5,400/- with effect from 26th September, 2014 (FN).

ASHOK KUMAR, Under Secy

The 14th October 2014

No. 19-10-2014-A.E.I—The President is pleased to promote Dr. Ramakrishna Sura, Joint Director to the post of Additional Director in the Directorate of Adult Education in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- with Grade Pay of Rs. 8,700/- with effect from 14th October, 2014 (FN).

ASHOK KUMAR, Under Secy

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,
N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014
www.dop.nic.in